

Jer

Chapter 9

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

אֶת	וּלְלַיְלָה	יוֹמָם	וְאִבְכָּה	דְּמָעָה	מִקּוֹר	וְעֵינַי	מַיִם	רֹאשִׁי	יִתֵּן	מִי-	1
के-लिए	और-रात	दिन	और-मैं-रोऊँगा	आँसू-का	स्रोत	और-आँखें-मेरी	पानी	सिर-मेरा	देगा	कौन	
H0853	H3915	H3119	H1058	H1832	H4726		H4325		H5414	H4310	
								עַמִּי:	בֵּת-	חָלָלִי	
								लोगों-मेरे-के	बेटी	मारे-गए	
									H1323		

यदि मेरा सिर पानी से भरा होता, और मेरी आँखें आँसू का झरना होतीं तो मैं अपने नष्ट किये गए लोगों के लिए दिन रात रोता रहता।

מֵאֵתָם	וְאֶלְכָּה	עַמִּי	אֶת-	וְאֶעֱזָבָהּ	אֲדָרְתִּים	מְלוֹן	בְּמִדְבָּר	יִתְּנֵנִי	מִי-	2
से-उनसे	और-मैं-जाऊँगा	लोगों-मेरे-को	यह	और-मैं-छोड़ूँगा	यात्रियों-का	धर्मशाला	में-जंगल	देगा-मुझे	कौन	
H0854	H3212		H0853		H0732	H4411		H5414	H4310	
					בְּנֵדִים:	עֲצָרַת	מִנְּאֻפִּים	כֻּלָּם	כִּי	
					विश्वासघातियों-की	सभा	व्यभिचारी-हैं	सब	क्योंकि	
					H0898	H6116	H5003	H3605		

यदि मुझे मरुभूमि में रहने का स्थान मिल गया होता जहाँ किसी घर में यात्री रात बिताते, तो मैं अपने लोगों को छोड़ सकता था। मैं उन लोगों से दूर चला जा सकता था। क्योंकि वे सभी परमेश्वर के विश्वासघाती व व्यभिचारी हो गए हैं, वे सभी उसके विरुद्ध हो रहे हैं।

בְּאֶרֶץ	גְּבֻרָו	לְאַמוֹנָה	וְלֹא	שָׁקֵר	קִשְׁתָּם	לְשׁוֹנָם	אֶת-	וַיְדַרְכוּ	3
में-देश	वे-प्रबल-हुए	के-लिए-सच्चाई	और-नहीं	झूठ	धनुष-उनकी	जीभ-अपनी	यह	और-उन्होंने-तानी-है	
H0776	H1396	H0530	H3808	H8267	H7198	H3956	H0853	H1869	
ס	יְהוָה:	נֹאֵם-	יִדְעוּ	לֹא-	וְאֵתוּ	יִצְאוּ	וְרַעָה	מִרְעָה	כִּי
—	यहोवा-का	वचन	वे-जानते	नहीं	और-मुझे	वे-निकले	बुराई	की-और	से-बुराई
	H3068	H5002	H3045	H3808	H0853	H3318		H0413	क्योंकि

“वे लोग अपनी जीभ का उपयोग धनुष जैसा करते हैं, उनके मुख से झूठ बाण के समान छूटते हैं। पूरे देश में सत्य नहीं। झूठ प्रबल हो गया है, वे लोग एक पाप से दूसरे पाप करते जाते हैं। वे मुझे नहीं जानते।” यहोवा ने ये बातें कहीं।

אֶחָ	כָּל-	כִּי	תִּבְטְחוּ	אֶל-	אֶחָ	כָּל-	וְעַל-	הַשָּׂמֶר	מִרְעֵהוּ	אִישׁ	4
भाई	हर	क्योंकि	भरोसा-करो	मत	भाई	किसी-भी	और-पर	सावधान-रहो	से-पड़ोसी-अपने	हर-एक	
H0251	H3605		H0982	H0408	H0251	H3605		H8104	H7453	H0376	
						יְהִלָּה:	רָכִיל	רֵעַ	וְכָל-	יַעֲקֹב	
						चलता-है	चुगली-करता-है	मित्र	और-हर	धोखा-देता-है	धोखा
						H1980	H7400	H7453	H3605	H6117	H6117

“अपने पड़ोसियों से सतर्क रहो, अपने निज भाइयों पर भी विश्वास न करो। क्योंकि क्योंकि हर एक भाई ठग हो गया है। हर पड़ोसी तुम्हारे पीठ पीछे बात करता है।

דַּבָּר-	לְשׁוֹנָם	לְמִדּוֹ	יִדְבְּרוּ	לֹא	וְאִמְתוּ	וְהִתְלוּ	בְּרֵעֵהוּ	וְאִישׁ	5
बोलना	जीभ-अपनी-को	उन्होंने-सिखाई-है	वे-बोलते	नहीं	और-सच	वे-ठगते-हैं	के-साथ-पड़ोसी-अपने	और-हर-एक	
H1696	H3956	H3925	H1696	H3808	H0571		H7453	H0376	
							נִלְאוּ:	הַעֲנָה	שָׁקֵר
							वे-थक-गए-हैं	अधर्म-करने-में	झूठ
							H3811		H8267

हर एक व्यक्ति अपने पड़ोसी से झूठ बोलता है। कोई व्यक्ति सत्य नहीं बोलता। यहूदा के लोगों ने अपनी जीभ को झूठ बोलने की शिक्षा दी है। उन्होंने तब तक पाप किये जब तक कि वे इतने थके कि लौट न सकें।

ס	: יְהוָה	נָאֵם	אֹתִי	דַּעַת	מָאֲנוּ	בְּמַרְמָה	מַרְמָה	בְּתוֹךְ	שְׁבִיבָה	6
—	यहोवा-का	वचन	को-मुझे	जानने-को	उन्होंने-मना-किया	में-छल	छल	में-बीच	बैठना-तेरा	
	H3068	H5002	H0853	H3045	H3985	H4820	H4820	H8432	H3427	

एक बुराई के बाद दूसरी बुराई आई। झूठ के बाद झूठ आया। लोगों ने मुझे जानने से इन्कार कर दिया।" यहोवा ने ये बातें कहीं।

אֵיךְ	כִּי	וּבְחִנְתִּים	צוֹרְפִים	הִנְנִי	צְבָאוֹת	יְהוָה	אָמַר	כֹּה	לָכֵן	7
कैसे	क्योंकि	और-मैं-परखूँगा-उन्हें	मैं-शुद्ध-करूँगा-उन्हें	देखो	सेनाओं-का	यहोवा	कहता-है	इस-प्रकार	इसलिए	
		H0974	H6884	H2009		H3068	H0559	H3541		
							עַמִּי:	בֵּת	מִפְּנֵי	אֲשֶׁהָ
							लोगों-मेरे-के	बेटी	से-कारण	मैं-करूँ
								H1323	H6440	

अतः सर्वशक्तिमान यहोवा कहता है, "मैं यहूदा के लोगों की परीक्षा वैसे ही करूँगा जैसे कोई व्यक्ति आग में तपाकर किसी धातु की परीक्षा करता है। मेरे पास अन्य विकल्प नहीं हैं। मेरे लोगों ने पाप किये हैं।

רַעְיוֹ	אֶת-	שְׁלוֹם	בְּפִי	דַּבֵּר	מַרְמָה	לְשׁוֹנִים	(שֹׁחַט]	חַזַּן	8
पड़ोसी-अपने	से	शांति	मैं-मुँह-अपने	बोलती-है	छल	जीभ-उनकी	तेज़	तीर	
H7453	H0854	H7965	H6310	H1696	H4820	H3956	H7819	H2671	
				אָרְבוּ:	יְשִׁים	וּבְקִרְבּוֹ	וּדְבָר		
				घात-अपनी	वह-रखता-है	और-मैं-हृदय-अपने	वह-बोलता-है		
				H0696		H7130	H1696		

यहूदा के लोगों की जीभ तेज बाणों की तरह हैं। उनके मुँह से झूठ बरसता है। हर एक व्यक्ति अपने पड़ोसी से अच्छा बोलता है। किन्तु वह छिपे अपने पड़ोसी पर आक्रमण करने की योजना बनाता है।

לֹא	כִּי	אֲשֶׁר-	בְּנוֹי	אִם	יְהוָה	נָאֵם-	בָּם	אֶפְקֹד-	לֹא-	אֵלָה	הָעֵל-	9
नहीं	ऐसी	जो	से-जाति	यदि	यहोवा-का	वचन	को-उन	मैं-दण्ड-दूँगा	नहीं	इन-बातों	क्या-पर	
H3808	H2088				H3068	H5002			H3808	H0428		
									ס	תַּתְּנֶקֶם		
									—	נַפְשִׁי:	וְהָבִי	
										प्राण-मेरा	वह-बदला-लेगी	
										H5315	H5358	

क्या मुझे यहूदा के लोगों को इन कामों के करने के लिये दण्ड नहीं देना चाहिए" यह सन्देश यहोवा का है। "तुम जानते हो कि मुझे इस प्रकार के लोगों को दण्ड देना चाहिए। मैं उनको वह दण्ड दूँगा जिसके वे पात्र हैं।"

כִּי	קִינָה	מִדְבַּר	נְאוֹת	וְעַל-	וְנָהִי	בְּכִי	אֲשָׂא	הַהָרִים	עַל-	10		
क्योंकि	शोकगीत	जंगल-के	चरागाहों	और-पर	और-विलाप	रोना	मैं-उठाऊँगा	पहाड़ों	पर			
	H7015	H4999	H5092	H1065	H5375	H2022						
	הַשָּׁמַיִם	מֵעוֹף	מִקְנָה	קוֹל	שָׁמְעוּ	וְלֹא	עֹבֵר	אִישׁ	מִבְּלִי-	נִצְתּוֹ		
	आकाश-के	से-पक्षी	पशुओं-की	आवाज़	वे-सुनते	और-नहीं	गुज़रनेवाला	पुरुष	कोई-नहीं	वे-जला-दी-गई-हैं		
	H8064	H5775	H4735	H8085	H3808		H0376	H1097	H3341			
									וְעַד-	בְּהֵמָה		
									चले-गए	भाग-गए-हैं	पशु	
									H1980	H5074	H0929	H5704

मैं (यिर्मयाह) पर्वतों के लिये फूट फूट कर रोऊँगा। मैं खाली खेतों के लिये शोकगीत गाऊँगा। क्यों क्योंकि जीवित वस्तुएँ छीन ली गईं। कोई व्यक्ति वहाँ यात्रा नहीं करता। उन स्थान पर पशु ध्वनि नहीं सुनाई पड़ सकती। पक्षी उड़ गए हैं और जानवर चले गए हैं।

אֲתָן	יְהוָה	עָרֵי	וְאֶת-	תְּנִים	מֵעוֹן	לְגִלְיָם	יְרוּשָׁלַיִם	אֶת-	וּנְתִי	11
मैं-बनाऊँगा	यहूदा-के	नगरों	और-यह	गीदड़ों-का	बसेरा	ढेर	यरूशलेम-की	यह	और-मैं-बनाऊँगा	
H5414	H3063		H0853	H4583	H1530	H3389	H0853	H5414		
							ס	יּוֹשֵׁב:	מִבְּלִי	שְׂמֹמָה
							—	बसनेवाला	कोई-नहीं	वीराना
								H3427	H1097	

“मैं (यहोवा) यरूशलेम नगर को कूड़े का ढेर बना दूँगा। यह गीदड़ों की माँदे बनेगा। मैं यहूदा देश के नगरों को नष्ट करूँगा अतः वहाँ कोई भी नहीं रहेगा।”

12 מִי־הָאִישׁ הַחֲכָם וַיְבִן אֶת־זֶאת וַאֲשֶׁר דָּבַר פִּי־יְהוָה אֵלָיו
 कौन पुरुष बुद्धिमान और-वह-समझे यह यह और-जिसे कहा-है मुँह यहीवा-के से-उस
[H0413](#) [H3068](#) [H6310](#) [H1696](#) [H2063](#) [H0853](#) [H0995](#) [H2450](#) [H0376](#) [H4310](#)

וַיְגַדֵּל עַל־מָה אֲבָרָה הָאָרֶץ כַּמְדָּבָר מִבְּלִי עֵבֶר: ס
 और-वह-बताए पर क्या नाश-हो-गई-है भूमि जला-दी-गई-है जैसे-जंगल कोई-नहीं गुज़रनेवाला
[H5046](#) [H4100](#) [H0006](#) [H0776](#) [H3341](#) [H1097](#)

क्या कोई व्यक्ति ऐसा बुद्धिमान है जो इन बातों को समझ सके क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे यहोवा से शिक्षा मिली है क्या कोई यहोवा के सन्देश की व्याख्या कर सकता है देश क्यों नष्ट हुआ यह एक सूनी मरुभूमि की तरह क्यों कर दिया गया जहाँ कोई भी नहीं जाता

13 וַיֹּאמֶר יְהוָה עַל־עֵזְבֹם אֶת־תְּוֹרָתִי אֲשֶׁר נִתְּנָה לְפָנָיִם וְלֹא־וַיֹּאמֶר
 और-कहा और-ने यहोवा-ने पर छोड़ने-उनके यह व्यवस्था-मेरी जो मैंने-दी सामने-उनके और-नहीं
[H0559](#) [H3068](#) [H0853](#) [H8451](#) [H5414](#) [H6440](#) [H3808](#)

שָׁמְעוּ וַיֹּאמֶר בְּקוֹלִי וְלֹא־הָלַכְוּ בָּהֶם: ס
 उन्हीं-सुना और-वह-बताए को-आवाज़-मेरी और-नहीं वे-चले मैं-उस
[H8085](#) [H3808](#) [H1980](#)

यहोवा ने इन प्रश्नों का उत्तर दिया। उसने कहा, “यह इसलिये हुआ कि यहूदा के लोगों ने मेरी शिक्षा पर चलना छोड़ दिया। मैंने उन्हें अपनी शिक्षा दी, किन्तु उन्होंने मेरी सुनने से इन्कार किया। उन्होंने मेरे उपदेशों का अनुसरण नहीं किया।”

14 וַיִּלְכְּוּ אַחֲרַי שְׂרָרוֹת לִבִּים וְאַחֲרָיו הַבְּעָלִים אֲשֶׁר לְמַדּוּם אֲבוֹתָם: ס
 और-वे-चले पीछे हठ हृदय-अपने-की और-पीछे और-पीछे जो सिखाया-उन्हें पूर्वजों-अपने-ने
[H3212](#) [H8307](#) [H0001](#) [H3925](#)

यहूदा के लोग अपनी राह चले, वे हठी रहे। उन्होंने असत्य देवता बाल का अनुसरण किया। उनके पूर्वजों ने उन्हें असत्य देवताओं के अनुसरण करने की शिक्षा दी।”

15 לָכֵן כֹּה־אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל הִנְנִי מֵאֲכִילֶם אֶת־הָעַם לִכְן
 इसलिए इस-प्रकार कहा-है यहोवा सेनाओं-का परमेश्वर इस्राएल-का देखी मैं-खिलाऊँगा-उन्हें यह लोगों
[H3541](#) [H0559](#) [H3068](#) [H0430](#) [H3478](#) [H2009](#) [H0398](#) [H0853](#)

הָיָה לָעֵנָה וְהַשְׁקִיתִים מִי־רֹאשׁ: ס
 इन-को नागदीना और-मैं-पिलाऊँगा-उन्हें पानी विष-का
[H2088](#) [H3939](#) [H8248](#) [H4325](#) [H7219](#)

अतः इस्राएल का परमेश्वर सर्वशक्तिमान यहोवा कहता है, “मैं शीघ्र ही यहूदा के लोगों को कड़वा फल चखाऊँगा। मैं उन्हें जहरीला पानी पिलाऊँगा।”

16 וְהַפְּצוֹתִים וְהַפְּצוֹתִים בְּגוֹיִם לֹא יָדְעוּ הַמָּה וְשָׁלַחְתִּי
 और-मैं-भेजूँगा और-मैं-पूर्वज-उनके वे वे-जानते नहीं जिन्हें मैं-जातियों और-मैं-तितर-बितर-करूँगा-उन्हें
[H7971](#) [H0001](#) [H1992](#) [H3045](#) [H3808](#)

אַחֲרֵיהֶם אֶת־הַחֲרָב עַד כָּל־יְמֵי אוֹתָם: פ
 पीछे-उनके यह तलवार तक को-उन समाप्त-करने-मेरे
[H0853](#) [H3615](#) [H5704](#) [H2719](#) [H0853](#)

मैं यहूदा के लोगों को अन्य राष्ट्रों में बिखेर दूँगा। वे अजनबी राष्ट्रों में रहेंगे। उन्होंने और उनके पूर्वजों ने उन देशों को कभी नहीं जाना। मैं तलवार लिये व्यक्तियों को भेजूँगा। वे लोग यहूदा के लोगों को मार डालेंगे। वे लोगों को तब तक मारते जाएंगे जब तक वे समाप्त नहीं हो जाएंगे।”

17 כֹּה־אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת הַתְּבוּנָה וְקָרָא הַתְּבוּנָה לְמִקְוֵנוֹת וְתְבוּאֵינָה וְאֶל־
 इस-प्रकार कहा-है यहोवा सेनाओं-का समझी और-बुलाओ और-बुलाओ को-शोक-करनेवालियों और-वे-आएँ और-पास
[H3541](#) [H0559](#) [H3068](#) [H0995](#) [H7121](#) [H6969](#) [H0935](#) [H0413](#)

הַחֲכָמוֹת שְׁלַחוּ וְתְבוּאָה: ס
 बुद्धिमान-स्त्रियों-के भेजो और-वे-आएँ
[H2450](#) [H7971](#) [H0935](#)

सर्वशक्तिमान यहोवा जो कहता है, वह यह है: “अब इन सबके बारे में सोचो। अन्त्येष्टि के समय भाड़े पर रोने वाली स्त्रियों को बुलाओ। उन स्त्रियों को बुलाओ जो विलाप करने में चतुर हों।”

יָגֵל- बहें H5140	וְעַפְעָפִינוּ और-पलके-हमारी H6079	דְּמֵעָה आँसू H1832	עֵינֵינוּ आँखें-हमारी H3381	וְתַרְדָּה और-बहें H3381	נָהַי विलाप H5092	עָלֵינוּ पर-हम H3381	וְתִשָּׁנָה और-वे-उठाएँ H5375	וְתִמְהָרְדָה और-वे-जल्दी-करें H5375	18
-------------------------	--	---------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	----

מים:
पानी
H4325

लोग कहते हैं, “उन स्त्रियों को जल्दी से आने और हमारे लिये रोने दो, तब हमारी आँखें आँसू से भरेंगी और पानी की धारा हमारी आँखों से फूट पड़ेगी।”

מָאֵר बहुत H3966	בְּשָׁנָה हम-लज्जित-हुए-हैं H0954	שָׁדְדָנוּ हम-उजड़-गए-हैं H7703	אֵיךְ कैसे H7703	מִצִּיּוֹן से-सियोन H6726	נִשְׁמָע सुनाई-देती-है H8085	נָהַי विलाप-की H5092	קוֹל आवाज़ H5092	כִּי क्योंकि H5092	19
------------------------	---	---------------------------------------	------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	--------------------------	----

— מְשַׁכְּנֵנוּ: אוֹתוֹ
— आवासों-हमारे-को उन्होंने-फेंक-दिया-है
כִּי
क्योंकि
אֶרֶץ
भूमि
עֲזַבְנוּ
हमने-छोड़-दी-है
כִּי
क्योंकि
H4908
H7993
H0776

“जोर से रोने की आवाजें सियोन से सुनी जा रही हैं। ‘हम सचमुच बरबाद हो गए। हम सचमुच लज्जित हैं। हमें अपने देश को छोड़ देना चाहिये, क्योंकि हमारे घर नष्ट और बरबाद हो गये हैं। हमारे घर अब केवल पत्थरों के ढेर हो गये हैं।”

וְלִמְדָה और-सिखाओ H3925	פִּי मुँह-उसके-का H6310	דְּבַר- वचन H1697	אָזְנוֹכֶם कान-तुम्हारा H0241	וְתִקַּח और-ग्रहण-करे H3947	יְהוָה यहोवा-का H3068	דְּבַר- वचन H1697	נְשִׁים हे-स्त्रियों H0802	שָׁמְעָה सुनी H8085	כִּי क्योंकि H8085	20
--------------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------------------	---------------------------	--------------------------	----

קִינָה:
शोकगीत
H7015
רַעוּתָהּ
सखी-अपनी-को
H7468
וְאִשָּׁה
और-स्त्री
H0802
נָהַי
विलाप
H5092
בְּנֹתַיִם
को-बेटियों-अपनी
H1323

यहूदा की स्त्रियों, अब यहोवा का सन्देश सुनो। यहोवा के मुख से निकले शब्दों को सुनने के लिये अपने कान खोल लो। यहोवा कहता है अपनी पुत्रियों को जोर से रोना सिखाओ। हर एक स्त्री को इस शोक गीत को सीख लेना चाहिये:

בְּחוּרֵים जवानों-को H0970	מִחוּץ से-बाहर H2351	עוֹלָלָה बच्चे H5768	לְהַכְרִית काटने-को H3772	בְּאֶרְמֹנֵינוּ में-महलों-हमारे H0759	בָּא आई-है H0935	בְּחִזְקֵינוּ में-खिड़कियों-हमारी H2474	מוֹת मृत्यु H4194	עָלָה चढ़-आई-है H5927	כִּי क्योंकि H5927	21
----------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------	---	------------------------	---	-------------------------	-----------------------------	--------------------------	----

מִרְחֹבוֹת:
से-चौराहों
H7339

“मृत्यु हमारी खिड़कियों से चढ़कर आ गई है। मृत्यु हमारे महलों में घुस गई है। सड़क पर खेलने वाले हमारे बच्चों की मृत्यु आ गई है। सामाजिक स्थानों में मिलने वाले युवकों की मृत्यु हो गई है।”

הַשָּׂדֶה खेत-की H6440	פָּנֵי सतह H6440	עַל- पर H6440	דְּבַר जैसे-गोबर H1828	הָאָרֶם मनुष्य-की H0120	נִבְלָת लाश H5038	וְנִפְלְגָה और-गिरेगी H5307	יְהוָה यहोवा-का H3068	נְאֻם- वचन H5002	כֹּה इस-प्रकार H3541	דְּבַר बोल H1696	22
------------------------------	------------------------	---------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	------------------------	----------------------------	------------------------	----

— מְאֻסָּה:
— इकट्ठा-करनेवाला
H0622
וְאֵין
और-नहीं-है
H0369
הַקָּצֵר
काटनेवाले-के
H0369
מֵאֲחֵרֵי
पीछे-के
H5995
וּבְעֵמִיר
और-जैसे-पूली
H5995

यिर्मयाह कही, “जो यहोवा कहता है, ‘वह यह है: मनुष्यों के शव खेतों में गोबर से पड़े रहेंगे। उनके शव जमीन पर उस फसल से पड़े रहेंगे जिन्हें किसान ने काट डाला है। किन्तु उनको इकट्ठा करने वाला कोई नहीं होगा।”

הַגְּבוּר बलवान H1368	וְתִהְלֵל घमंड-करे H2451	וְאֵל- और-मत H0408	בְּחַכְמָתוֹ में-बुद्धि-अपनी H2451	חָכֶם बुद्धिमान H2450	וְתִהְלֵל घमंड-करे H2450	אֵל- मत H0408	יְהוָה यहोवा H3068	אָמַר कहा-है H0559	כֹּה इस-प्रकार H3541	23
-----------------------------	--------------------------------	--------------------------	--	-----------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	----

— בְּעֵשְׂרוֹ:
में-धन-अपने
H6239
עֲשִׂיר
धनी
H6223
וְתִהְלֵל
घमंड-करे
H0408
אֵל-
मत
H0408
בְּגִבּוֹרָתוֹ
में-शक्ति-अपनी
H1369

यहोवा कहता है, “बुद्धिमान को अपनी बुद्धिमानी की डींग नहीं मारनी चाहिए। शक्तिशाली को अपने बल का बखान नहीं करना चाहिए। सम्पत्तिशाली को अपनी सम्पत्ति की हवा नहीं बांधनी चाहिए।

24
 יהוה אני כי אותי וידע השכל המתהלל יתהלל בזאת אם כי
 यहोवा मैं कि को-मुझे और-जानना समझना घमंड-करनेवाला घमंड-करे में-इस यदि बल्कि
[H3068](#) [H0589](#) [H0853](#) [H3045](#) [H2063](#)

ס יהוה: נאם- הפצתי באלה כי- בארץ וצדקה משפט קוד עשה
 — यहोवा-का वचन मैं-प्रसन्न-हूँ में-इन क्योंकि में-पृथ्वी और-धार्मिकता न्याय कृपा करनेवाला
[H3068](#) [H5002](#) [H0428](#) [H0776](#) [H6666](#) [H4941](#)

किन्तु यदि कोई डींग मारना ही चाहता है तो उसे इन चीजों की डींग मारने दो: उसे इस बैत की डींग मारने दो कि वह मुझे समझता और जानता है। उसे इस बात की डींग हॉकने दो कि वह यह समझता है कि मैं यहोवा हूँ। उसे इस बात की हवा बांधने दो कि मैं कृपालु और न्यायी हूँ। उसे इस बात का ढींढोरा पीटने दो कि मैं पृथ्वी पर अच्छे काम करता हूँ। मुझे इन कामों को करने से प्रेम है।” यह सन्देश यहोवा का है।

25
 בערלה: מול כל- על- ופקדתי יהוה נאם- באים ימים הנה
 में-खलड़ी खतना-हुए सब पर और-मैं-दण्ड-दूंगा यहोवा-का वचन आ-रहे-हैं दिन देखो
[H6190](#) [H3605](#) [H3068](#) [H5002](#) [H0935](#) [H3117](#) [H2009](#)

वह समय आ रहा है, यह सन्देश यहोवा का है, “जब मैं उन लोगों को दण्ड दूंगा जो केवल शरीर से खतना कराये हैं।

26
 ועל- מואב ועל- עמון בני- ועל- אדום ועל- יהודה ועל- מצרים
 और-पर मोआब और-पर अम्मोन-के पुत्रों और-पर एदोम और-पर यहूदा और-पर मिस्र पर
[H4124](#) [H5983](#) [H0123](#) [H3063](#) [H4714](#)

בית- וכל- ערלים הגוים כל- כי- במדבר השבים פאה קצוצי כל-
 घराना और-सब खतनारहित-हैं जातियाँ सब क्योंकि में-जंगल बसनेवाले कनपटी कटे-हुए सब
[H3605](#) [H6189](#) [H3605](#) [H3427](#) [H6285](#) [H7112](#) [H3605](#)

ס :לב- ערלי- ישראל
 — हृदय-के खतनारहित इस्राएल-का
[H6189](#) [H3478](#)

मैं मिस्र, यहूदा, एदोम, अम्मोन तथा मोआब के राष्ट्रों और उन सभी लोगों के बारे में बातें कर रहा हूँ जो मरुभूमि में रहते हैं जो दाढ़ी के किनारों के बालों को काटते हैं। उन सभी देशों के लोगों ने अपने शरीर का खतना नहीं करवाया है। किन्तु इस्राएल के परिवार के लोगों ने हृदय से खतना को नहीं ग्रहण किया है, जैसे कि परमेश्वर के लोगों को करना चाहिए।”